

-=:॥ आनंद के लुटे खजाने, भाई सतगुरु के दरबार में ॥:=-

सतगुरु के दरबार में, भाई धन गुरु के दरबार में ।

आनंद के लुटे खजाने, भाई सतगुरु के दरबार में ॥

धन में सुखः को देखने वालो, धनवालो से पूछ लो ।

एक पल कि फुर्सत नाही, भाई जीवन कार्य व्यहार में ॥ १ ॥

कोठी बंगले कारो की भाई, कमी नहीं उसके पास में ।

वो भी यूं कहते है, हम सुखी नहीं संसार में ॥ २ ॥

भाई बंधू कुटुंब कबीला, इतना बड़ा परिवार है ।

वो देखे रोज कचहरी, भाई आपस कि तकरार में ॥ ३ ॥

न सुखः घर में रहण से, भाई न सुखः बन में जाणे से ।

गुरु भोलानाथ समझावै, सुख है आत्म विस्तार में ॥ ४ ॥

जय शंकर की....

जय श्री नाथजी की.